

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/SECY/STEX/124

9th August 2019

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing Dept./ Dept of Corporate Services	Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block
Dalal Street	Bandra –Kurla Complex,
Mumbai – 400 001	Bandra (East) Mumbai – 400 051
Scrip Code/ ID: 541956	Scrip Code: IRCON

Sub: Publication of Un-audited Financial Results (Standalone/ Consolidated) for the quarter ended 30th June 2019

Dear Sir/Madam,

Copy of Un-audited Financial Results (Standalone/ Consolidated) for the quarter ended 30th June 2019, approved by the Board at its meeting held on 8th August 2019 as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

Please take note of above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ircon International Limited

(Ritu Arora)

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: FCS 5270





Green signal by Centre for inter- and intra-city transportation in 64 cities Delhi, Mumbai,

Bengaluru, Hyderabad and Ahmedabad got highest number of

ation and he governbuses to 64 orations for e-buses for inter-city operation and 100 e-buses and technical eligibility notified for last-mile connectivity to the Delhi Metro Rail Corporation.

According to the EoI, buses that satisfy the required localisation level

under FAME II will be eligible for funding under the scheme.

buses, at 300 each

Department of Heavy

from million-plus

cities, smart cities,

state/UT capitals for

submission of proposal

Industry invited Eols

These buses will run about 4 billion kilometres during their contract

cumulatively about 1.2 billion litres of fuel over the contract period, which will result into avoidance of 2.6 million tonnes of CO2 emission.

In February, the Union Cabinet approved the proposal for implementation of scheme titled 'Faster' Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II)' for promotion of electric mobility in the country.

The scheme with total outlay of ₹10,000 crore over the period of three years was implemented with effect from April 2019.

sion of the present scheme utied 'FAME Indial', which was launched on April 1, 2015, with a total outlay of ₹895 crore.

The total fund requirement for this scheme is ₹10,000 crore for the 2019-20 and 2021-22 period.

The main objective of the scheme is to encourage faster adoption of electric and hybrid vehicle by way of offering upfront incentive on purchase of electric vehicles and also by way of establishing a necessary charging infrastructure for electric vehicles.

(in crore)

218 CRORE

2019-20

EBIT OI

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt of India Undertaking)

Registered Office: C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 E-mail: info@ircon.org; Website: www.ircon.org Corporate Identity Number: L45203DL1976GOI008171



EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

								It in croit
		Standa	lone		Sec. 4			
Particulars		Quarter ended 31 March 2019 (Unaudited)		Year ended 31 March 2019 (Audited)	Quarter ended 30 June 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2019 (Unaudited)	Quarter ended 30 June 2018 (Unaudited)	Year ended 31 March 20 (Audited)
Total income from Operations	1,120.83	1,532.79	704.13	4,415.10	1,069.85	1,797.20	770.84	4,798.43
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	215.58	223.59	118.62	615.18	219.14	227.29	127.31	624.26
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	215.58	223.59	118.62	615.18	219.14	227.29	127.31	624.26
Net profit after tax	141.23	95.59	162.75*	444.68	144.66	99.71	170.38	450.07
Total comprehensive income	142.79	81.29	174.27	436.89	146.22	85.41	181.90	442.28
Equity share capital	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)	-		-	3,855.49				3,870.17
Earnings Per Share (not annualized)							1	
(Face Value of ₹10/- each)								
(a) Basic (in ₹)	15.02	10.16	17.30	47.28	15.38	10.60	18.12	47.85
(b) Diluted (in ₹)	15.02	10.16	17.30	47.28	15.38	10.60	18.12	47.85

* Net Profit after tax includes Rs. 84.50 crore for Income tax refund for earlier year's Assessments. Notes:

The above Standalone and Consolidated financial results have been reviewed by the audit committee and approved by the board of directors at their meeting held on 8th August, 2019. The Statutory auditors of the company have conducted limited review of quarterly results ended 30th June, 2019. Standalone figures for the Quarter ended 30th June 2018 have not been reviewed by the auditor since quarterly results have been prepared at half year ended 30th September, 2018 after listing of shares on 28th September, 2018 and is based on management information system (MIS)

The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) amendment Rules, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

The above is an extract of the detailed format of the quarter ended June 30, 2019 financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE 3 (www.bseindia.com/corporates), NSE ((www.bseindia.com/corporates) and Company's website at www.ircon.org. Adoption of new accounting standard on Leases - Ind AS 116"

Effective April 1, 2019, the Company has adopted ind AS 116 "Leases", applied to all lease contracts existing on April 1, 2019 using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings, on the date of initial application. Accordingly, comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. On transition, the adoption of the new standard resulted in recognition of Right-of-Use asset (ROU) of Rs. 0.73 Crore and a lease liability by the same amount with an adjustment amounting Rs. Nil to retained earnings. The effect of this adoption is insignificant on the profit for the period and earnings per share.

Figures of quarter ended March, 2019 are balancing figures between audited figures in respect of the full FY 2018-19 and the published year to date figures upto quarter ended December of that financial year.





Place: New Delhi Date: 8th August 2019

S. K. Chaudhary Chairman & Managing Director DIN No.: 00515672

पाकिस्तान ने रोकी समझौता एक्सप्रेस

एजेंसियां

भागा से के साथ राजगविक संबंध कम करने के एक दिन चाद पाकिस्तान के रेल मंत्री रोख वगित अक्ष्यद ने मास के स्वथ सम्वीता एसगरेम ट्रेन सेवा निर्लाचिक करने को गुस्तार खे गोषणा को गशिद ने कहा, 'हमने समझौता एसगरेम ट्रेन सेवा के तिर्शेच करने का निर्णव किया है।' उन्होंने कहा, 'जब तक मैं रेल मंत्री रद्दांग, समझौता के उन डिब्बों का इस्तेगाल ईर के मौके रार यात्रियों की आवाजाहों के लिए किल्या जाएगा। भारत और पाकिस्तान के प्रसमप्रेस ट्रेन सेवा निर्लीबल कर दी गई थी। डालांकि, बाद में इस सेवा को दोबाव बहाल कर दिया गया। रेल मंत्री ने के तथा.'

में इस सेवा को दोबात बहाल कर दिया गया। रेल मंत्री ने बेताया, 'आगामी ठीन-पार महोने बहुत अहम हैं। गुऊ हो सकता है, तीक हम गुऊ होंचे चहते हैं। अगर हम पर युद्ध बोपा गया तो यह ऑर्तम युद्ध होगा।' भारत को बाज करने के लिए बात्री लाहीर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजयार रहे थे। उसी बोच मंत्री ने ट्रेन से निर्लाजन किय जो कु ऐलान किया। संयद्गीता एसप्रेम में छह शाननयान डिव्वे और एक एसी 3-दियर का बिब्बा है। शिमला समझौते के तहत हार देने सेक की गृहब्जा 2 दुण्लाई 1976 को को गई थी। इस ट्रेन सेवा को शुरूपका 22 जुलाई 1976 को की मारत को तरफ से थह ट्रेन दिल्ली से अटारी के बीच पाकिस्तान की ओर से यह लाहाँर से वाषा के बीच ज पाकिस्तान ने इससे एक दिन पहले बधवार को भारतीय पाकरतान उ इसरे एक हरी पुरु रही बुवयार का मासाव अजय बिसरिया को निष्कासित कर दिया था और भार राजनयिक संबंध कमतर करने का ऐलान किया था। ग राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक् में लिया गया जिसकी पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने को थी। इस बैठक में 3 और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे।

भारत-पाक में हो प्रत्यक्ष संवाद

न्यायालय का त्वरित सुनवाई से इब



पाकिस्तान के समझौता एक्सप्रेस को वाघा बॉर्डर पर रोकने के बाद इसे वापस अमतसर जिले के अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन पर लाया गया फोरो : यीरीआए

करने का अनुरोध किया गया। पीठ ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया में सूचीबढ़ होगी। शर्मा ने याचिका का शोध्र सुनवाई के लिए सूचीबढ़ करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार और कुछ कश्मीरी लोगों

ने कहा है कि वे अनुच्छेद 370 पर सप्ट्रपति के आदेश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आएंगे।

का राष्ट्र न जाएंगे। इस पर पीठ ने सवाल किया, 'यदि वे संयुक्त राष्ट्र जाएंगे इस पर पाठ न सवाल किया, वाद व संयुक्त एए आएग तो क्या संयुक्त राष्ट्र भारत के संविधान संशोधन पर रोक लगा सकता है? शर्मा ने अपनी यॉफिका में दाना किया है कि एष्ट्रांत का आदेश गैरकानुनी है क्योंकि इसे अम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति के बगैर ही पारित किया गया है।

आजाद को हवाईअड्डे पर रोका

कांग्रेस के बरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को गुरुवार को प्रशासन ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक लिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद हाल हो में अनुच्छेद 370 की कई थावाएं खत्म करने और राज्य हाल हा म अनुच्छर 370 का कह धायए खत्म करने आर राष्य के देने केइलासिन प्रेरेशों में बारेने के कुटम से पेदा हुए हालान के बीच करमीर जा रहे थे। वहीं, राप्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित छेभाल की प्रायं के कुछ लोगों के साथ बातबीत की तस्वीर पर आजार ने कहा, 'पैसे देकर आग किसो को भी साथ से सकते हो।' आजपा ने आजद के बयान को आलोचना कररे हुए माफी मांगने की बात कही।



4815-20

आर एक एसा 3-1 त्यर का ।कल्ला 6 । सभा इस ट्रेन रेश को अपूर्वस्वा 2 र पुल्लाई 192 भारत को तरफ, से पह ट्रेन दिल्ली से अप्र पाकिस्तान के उस से पक दिन पहले नुभवार के अनवप किसर्थ का के निष्कारित का दिवय प्रवर्गक संबंध करतर करते का ऐलान 1 राषट्रीय सुरक्षा सॉगति की देवक में लिया गय पाक उपानन्ते प्रदासक सान ने की पोला गय और रोप सैन्य अधिकारी मौजूद थे ।	76 को को गई थी। ारी के बीच जबकि के बीच चलती है। ो भारतीय उच्चायुक्त । और भारत के साथ रूपा था। यह निर्णय । जिसको अध्यक्षत)									N	र्ग सी सी BCC न सीपीएस	(भारत र एनबीसी सीआईए वेबसाइट	सरकार का सरकार का सी भवन, रू नाः L748991 टः www.nbca	चपक्रम) नोधी रोड, DL1960G6	नई दिल्ल 2003335		
भारत-पाक में हो प्रत्यक्ष संव	ाद		Banar Banar				-				स	वारणीय अव	। संरच	ना			
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अभिकाठी करमौर के लिए धारा 370 के अधिकांग प्र किए जाने के बाद बा हुए दोनों देशों से शाति और संयग बातने अधिकारी ने बुप्यार को कहा कि अमू-क स्थिति तथा प्रशासन और इसके व्यापक प्रभ के कुनून पर अभेरिक भी 'बारीवेंसे ने जप इससे पहले पारत के कदम पर पतन्द्रवार	गवधानों को सपाप्त इते तनाव को देखते का आग्रह किया। श्मीर को नई क्षेत्रीय हवों के बारे में भारत ' रखे हुए है।			30	জুন, 201 9) को समा	प्त तिमाई) के लिए :	क्षमान्द्	गपरीक्षित क्लेकित ग क्रिकी घटला है। अ		ध परिणाम समाप्त कर	ों का र	का नि	खन्त हो	1.	र लास में भारत वर्ष भारत का
ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर ' अपने यज्यविक संबंधों को सोमित कर दिंग पंजालय के प्रवलता ने कहा, 'अमेरिका ज क्षेत्रीय स्थिति और प्रशासन के बारे में भारता गं से नजन रखे हुए हैं। हन इन घटनाक्रमों के क ध्यान दे रहे हैं, जिनमें क्षेत्र में अस्थिस्ता बर सामित्त है। इन भारत और चक्तिस्ता के बी संबंधित मुद्दे पर 'प्रत्यक्ष संबाद' का समर्थन	नई दिल्ली के साथ मभू-कश्मीर की विदेश म्भू-कश्मीर की नई के कानून पर बारीकी व्यापक निहितायौँ पर इने को संभावना भी व कश्मीर और अन्य	प्रयालन कर पूर्व कर पूर्व कर पर अनियरि प्रदश इ	सामान्य गतिविधियं वात स्वाज और कर विदटी शंयर पूंजी लेखांकन बर्ष के तुर ते शेयर (कार्यरन अ	 से निवल लाम/(ह से निवल लाम/(ह वेया से निवल लाम/(ह विया से निवल लाम वारक वाल वाल वाल वारक वाल वाल वारक वाल 	नि) (अपवादात्मक म नि) (अपवादात्मक म /(हनि) (अपवादात्मक आय दुनमुत्याकित आरसित (र 1/- प्रति क हि	दों के प्रश्नमत) 6 मदी के प्रश्नमत) 1 निधि को डांहकर :	अलोहत निहियों ही हे ():	(1.3 (1.2 (1.3 (1.3 (1.3 (1.3 (1.3 (1.3 (1.3 (1.3	1 21 1 2 1 14 9 1 0 14	1,292.93 1 1,292.93 1 1,245.64 2,300.11	6,244,50 2,005,84 2,005,84 2,005,84 8,285,80 7,835,24 8,000,00 0,44	2.08	25.660.24 3.619.52 3.619.52 2.529.97 2.608.92 18.000.00 0.14	2.37,760.8 22,413.2 22,413.2 15,275.3 13,910.0 15,000.0	9 1,63,34 9 10,00 9 10,00 0 6,76 1 6,65 0 18,00	5.94 5 5.94 5 6.36 3 60.57 3	24.475.91 5,846.18 5,846.18 5,846.16 38,411.10 56,891.89 18,000.00 2,13
ल्यायालय का त्यरित सुलवाई उच्चवम न्यायातव ने जम्मू करमीर को वि संविधान के अनुप्रेष्ठ 370 के अधिकदर करने के यहप्रकी के आरेश को चुनौती देंग पार्वारया लगाए जा ने के खिलाफ तयर य सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यावमूर्ति एन वो रमण को अध्यक्षका अधिवना नामेल त्यारे कांग्रेस कार्य पूनावाल की युवाबिकाओं को सुनवाई के 1	ाशेप दर्जा देने वाले प्रावधानों को खत्म वाली और राज्य में ाचिकाओं पर शीघ्र वाले पीठ के समक्ष । कार्यकर्ता तहसीन	(ख) सन उपयुंका थे दिवेदेशक व द 0.65 प्रति में रायन्था १ उम्प्रेस बकाया स एकस और उ1 मार्ट, 2 100% इप्रि	कुन पिणामां का लेखायशे आयोजित उनकी बैठा स्टल के निर्माट घर्ष 20 १ इतियदी प्रयत् का 3 द्वार का के जुमादन के 2019 को कपनी ने 1 भी पटट सॉवियाआ प कमेकित दिदरण 8 1 019 को जनाका ठर्ष के	ह म अनुमंदित किया 518- 19 के लिए रे 18 तिम लोगाव देन की फ़िस्ट होगी हब एस 118 को अपने र लागू है। इंढ ए एस दिसंगर आद पर कोई दौरान, कॉन्नी ने एस्ट्रा	০ ঘনি इক্সিটে গবেৰ ব ইন্ফাংহিৰ কাঁ है जोकि न নায়। है, पटटे जोकि न 116 का अपनामे स व मी भौतिक प्रमाव मही सर्वासे (हॉडिया) लिपिटेन महत्ते भारत सरकार व	ষ্ঠু উকিল মুক্তে ঘছ গা বার্দিক সাদ বঁঠক ক এইনর, 2019 কী জ নাম और हानि के सं यज्जा। है ह (एफएससीसी) में हा	कि कंपनी और एचए तरा सरकार (साला एपनी दलने स पहले 1 03 के पारिटिक्ट सी व वे इसके तहत निधारि (स्थाप्ती वा व्यापार के 1 इसी तिए 30 जून 2 ान्सर्वि 24 दिसंदर, 20 1 मार्च, 2019 को सम	0.1 प्रोसी 24 दिसंबर 2018 स्वतीन देवांचे में किस वा कं राष्ट्रपति) के पास थे सामाग्य नियंत्रण में थी सामाग्य नियंत्रण में की सामादिक संयोजन के ती 18 स एषएससीसी कर्पन का तिमाही के जांकर, 31	7 2018-19 इसीलिए १ एनवीसीस् साथ व्याप 1 के अनुस प्रायन के १ एकएससी 1 की सहाय नार्थ, 2019	कं दौरान अधिक एजएकसंसी, अंध हे ने व्यापार संयोज र संयोजन के लि रण में सामान्य निर संबंध में निरुमों को सी से संबंधित सर्ज क बांधनी बनी ।	श त्रंचक्यासित ते के सहायक ति मे ईंड एएक १ विचार किया, ज्रण के अंतर्गत निर्धारित करता रे भी शामिल हे,		संबर 2018 लग बी (सूचीकरण उ हत क्टोंक एक्स तेपारी दिरीय प त/ www.rseinda एनबी	ক আঁৱাৰ্ক্তা ক গিৎ সন্দ্ৰ प্লৱন্ধ জি দাঁ হ'ল নি বিদ্যান্য কা যু	करो हैं और दि संख प्रकाशित किरण आदम्प सही विसीय प में प्रारूप स्टों- भी की देवसा।	किया भटा है। कितारें) दिणि रेणामों के विश् के एक्सचेज इट (www.ubk हे सिए व ज [रिश्व	2.13 वर्ष की तीलरी यम, 2015 के तून प्रारूम का की देवसाइटो
इरकॉन इंटरनेश (भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः श्री-4. जिला	केंद्र, साकेत, नई		59% की मृदि 704 करोड़ 7	-	करोड़ 83% 119 कर	N	215 atta	र्म्धन		w.bankafbaroi		लेयर इरणण्डली				विंक ओग्र Bastik of nor to simbly	Baroda
ईमेलः info@ircon.org ; वेयसाइटः कॉरपोरेट पहचान संख्याः L4520	3DL1976GO100			s की संचालन आव		तिमाही एक की ई			(IR) M II	द्वारा यह नोटिस दिय फोर्डिलको नं	जाता है कि बैक नाम/संयुक्त	ऑफ बहीदा के निम्नलि जन्म	खित शेथर प्रमाणप	-: है आ दि मनून समयान्य	शेखर प्रम विनिर्धि		श्रोमारो की
	10 जून, 2019 31 समाप्त विभाही सम	स्टॅंड्यल मार्च, 2019 3	ia Contraction	/ समेकित 11 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष (लेखिव)	30 জুন, 2019 া	वेत्तीय परिष समेकित अ चार्च, 2019 समाप्त विभाई। (अलेसित)	(3	सार ज्येड रुपए में) 31 मार्च, 2019 रामाज वर्ष (लेखित)	1. 2. 3. 4 5	BBE 147716 BBE 057669 BBE 705801 BBE 238025 BBE 001778	राजिंदर सिंह रेणु युध्व जंबन्दलाल ब नगेन्द्र कुभार जसबीर सिंह	আর্মিয় শীব্দ বীধ্য		18. 2027389 2009850 2034890 2028265	R 18710846 7005121 24073911 19548406 774005	2407441	२ १ेख्या 5 500 0 500 0 500 5 1000
परिचालन से कुल आब	1,120.83	1,532.79	704.13	4,415.10	1,069.85	1,797.20	770.84	4,798.43	7.	BBE 212957 BBE 252350	हिलाल जहा			2001155		5591120 958505	2500
शुद्ध लाम (हानि)(कर सं पहले और अपवाद स्वरूप मद)	215.58	223.59	118.62	615.18	219.14	227.29	127.31	624.26	1	BBE 225304	नीता प्रवीय ह			2024290	774506	1515733	
शुद्ध लाम (हानि)(कर से पहले और अपवाद स्वरूप भदों के बाद)	215.58	223.59	118.62	615.18	219.14	227.29	127.31	624.26		BBE 804465 BBE 069659	शीतल कुंम्प्ट	άτ <u>τ</u>		2004528		3466116 7821620	
কং ক ৰাব খুৱ লাম কুল বিগব आয	141.23	95.59 81.29	162.75* 174.27	444.68 436.89	144.66 146.22	99.71 85.41	170.38	450.07	12	BBE 262633	श्वति कुंघट मनीत राइन	र विटिंग मिल्म प्रादि		2022464	14879331	1488433	0 5000
चुला पराय जाय इक्विटी शेयर पूंजी	94.05	94.05	94.05	436.89 94.05	94.05	94.05	94.05	94,05	14	BBE 862007 BBE 086818	श्मेश कुमार	स पटेल	_	2013508		9506625	500
अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन संघथ को छोड़कर)		-	-	3,855.49				3,870.17	16	BBE 214961 BBE 224233	प्रताती जेठाति	स्था .			15401831 5705121 15047831	6706120	1000
कमाई प्रति शेयर (यार्षिकीकृत नहीं)										BBE 188043	जिन्नेश तसंत	নার্ছ থানপুত			28673921		Í
(प्रत्येक 10/- रुपए की फेस चैल्यू) (ए) बेसिक (रुपए में)	15.02	10.16	17.30	47.28	15.38	10.60	18.12	47,85	19	BBE 067380 BBE 157686	प्रभाषी त्वल			2010785	7603621	7504 120	500
(बी) डाइल्यूटिड (रुपए में)	15.02	10.16	17.30	47.28	15.38	10.60	18.12	47.85		BBE 179047	इतिशवस्ता स रताइ माबः मा	केतजु		2000312	156001	156500	500
"कर के बाद शुद्ध त्याम में पूर्वदर्ती वर्ष के चार्षिक जोट: 1. चंका स्टेंडअलान और समेकित विलीध परिषा तिमाही परिणामां की सीमित समीका की है। 30 30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही में मैवार वि	में की समीका लेखा समि 1 जून, 2018 को समाप्त केए गए है और प्रवंधन सु	ती न की है और 8 व तेमाही क लिए अल बना प्रणाली पर आध	अगस्त, 2019 की बेठ ग आंकडो की लेखा गरिस है।	क में निदेशक मंडल प्रशिशका ने पाम्रीझा न	ही की क्योंकि तिनाही	परिणाम 26 सितंबर, 3	2018 का शयरों वे र	धीबद्ध होने के बाद	23.	BBE 249895 BBE 098598	ৰাণ্টলালে মঞ	पुलाल परेल स्पाई प्रदेल			10473626		5 500
 स्टॅंडेक्डरलेन और समेकित वित्तीय घरिष्णम कंप सराधान नियमावती, 2016 और अन्य मान्यताप्र) उल्ले सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटन अपेक्षा उक्त उत्संखित वित्तीय परिषाओं का पूर्ण www.ircon.org पर उपलब्ध है। 	ग्त लेखा एरीक्षण अभ्यास एरे) नियम, 2015, यथा स प्रारूप बीएसई की स्ट	ों और लागू होने की जोपित, के मियम 3	हद तक नीतियों के 3 के तहन स्टॉक एक	साथ पठित भारतीय २ सचेज ये जनसय 30	रता परीक्षण भानको के जन 2019 को समाप्त	अनुरूप तयार किए ग तिनादी के विलीय प	ाए है। रिणामों के विस्तत प	रूप का निष्कर्त है।	25.	BBE 706112 BBE 804018	रजनीकांत न जनुष कुमार वर्षीस विकलि	रोत्तम पंचाल व्यापारी १		2045268	30798486 33445626	3079898 3345062	5 500 5 5000
सीज घर नए लेखा परीक्षण मानक को अपनाना 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कॅपनी ने इंठ एएला 1 1 धारित ठमई का सचयी समायाजन किया गया इस्संमाल रुपने के अधिकार की मान्यता मे परि कारार कमाई के लिए ताभ घर महत्वपूर्ण नहीं है।	18 लीज का अपनाया है, 'हैं। तदनुसार, 31 मार्घ, 3 गमित नए मानक अपनार	2019 को समाप्त वर्ष	क लिए तल्नात्मक	को अनुदर्शित करने ।	हं लिए समायोजित ना	ही किया गया है। परिव	र्तन पर, 073 करोड	रुपए क सपत्ति क	28,		के के वेलप्प कोलांगर प्रस गीला वेलप्प्स	। ति कोबुकुरून वेसण्पन			29703921	2970892	0 5000
गयर कमाइ का लिए ताम पर महत्वपूर्ण नहा ह। 5 मार्ग 2019 का समाप्त तिमाही क आकर्ड पूर्ण दि आंकडे हैं।	वेल्तीय धर्ष 201819 के	समंध मे लेखा परीहि	গা আক্তরা और তম	विन्तीय वर्ष के दिसब					क्रिस		विजय चंद्रके रोक के संबंध में	वर यदि कोई दावा /आपसि	हो तो उसे /उन्हें	इस विशापन की	तारीख से 7 वि	नों के अंदर बैंक	
	स्थानः नई दिव दिनांकः ६ अग				इरक	घेयरमेन	लिमिटेड के लि . के. चौधरी व प्रबंध निदेशन नं. 00515672	1	फार्य बडीर (इ.स.	नैसियल डिमिट्रक, ॰ व कार्पोरेट रॉटर, बिद्धांnvestorsen	ानाक्षमणुरु।, से निवेधक संवार ices@bank	क प्रा.सि. (यूपिट- व रेलिंगपद्धवी डैदशब्द निषाम, 7 वां राख, अध्याप्तव com) को	- 600 032 (괜-26, 端-딱	ई—पेल einwa इंक, बांद्र—दुव	nd.ris@kanv f रूषिप्र्वेस, क	y.com) या मैं संदा (पू), गुंब	क अपि कडीव ई- 400061
								1	त्रथान	पत्र आरी करने की ब 1: मुंख्द 10: 08: 08: 2015							के. खडावाला ई पनी सचिव